

रक्षाबंधन पर नकली खोवा, पनीर और घी बेचने की थी तैयारी, दुकान सील

Publish Date: Thu, 23 Aug 2018 06:32 PM (IST)



हजारीबाग : एसडीएम आदित्य रंजन ने हदू स्कूल रोड में बंगाल पनीर दुकान में छापेमारी कर नकली खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में सील कर दिया है। एसडीएम के निर्देश पर खाद्य इंस्पेक्टर ने दुकान में डंप कर रखे गए खाद्य पदार्थ पनीर, खोवा व घी के सैम्पल जब्त कर लिए हैं। एसडीएम की छापेमारी के बाद हदू स्कूल रोड में हड़कंप मच गया। जबतक लोग कुछ समझ पाते संचालक भोला बंगाली वहां से फरार हो गया। एसडीएम की छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई। छापेमारी में पांच बड़े बड़े फ्रिज में डंप कर रखे गए करीब चार क्विंटल पनीर, डेढ़ क्वटल खोवा, 200 किलो से अधिक घी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन पर इन सब चीजों की मांग बढ़ जाती है। बड़े पैमाने पर मिठाई की बिक्री और मांग होने के कारण सप्लायर मोटे रकम की चाहत में नकली सामानों से मिठाई बनाकर बाजार में सप्लाई करते हैं। नकली माल की सूचना एसडीएम को भी मिली थी। छापेमारी करीब दस बजे की गई। एसडीएम ने पूरे मामले में बताया कि खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया है। नकली पनीर, घी और खोवा बेचने की सूचना थी, जिसे लेकर छापेमारी की गई है। बड़े पैमाने पर फ्रिज में पनीर, खोवा रखा मिला है। जो खराब हो चुका है, जांच के बाद इसकी प्रमाणिकता सत्यापित होगी।

सात सालों से चल रहा था गोदाम, गया व बंगाल से आता था माल

हदू स्कूल रोड में भोला बंगाली की यह बंगाल पनीर दुकान सात साल से संचालित है। जिले में खोवा-पनीर और घी का एक मात्र थोक विक्रेता की दुकान है। छापेमारी के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक पनीर, खोवा और घी बंगाल और गया से मंगाया जा रहा था।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/hazaribagh-hazaribag-news-18344255.html>